



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

1976  
19/16

सं० 449] नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 11, 1976/अश्विन 19, 1898

No. 449] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 11, 1976/ASVINA 19, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
at a separate compilation

## MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (Department of Food)

### ORDER

New Delhi, the 11th October 1976

S.O. 674(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of section 53 read with clause (b) of sub-section (4) of section 53 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971, (81 of 1971), the assets, rights and liabilities of the Assam State Warehousing Corporation established for the composite state of Assam under the notification of the Government of Assam No. RDC 3/57/205, dated the 12th August, 1958, (here-in-after referred to as the dissolved Corporation) shall be apportioned between the Assam State Warehousing Corporation established under the notification of the Government of Assam No. Coop. 39/73/43, dated the 27th December, 1974, (hereinafter referred to as Assam Corporation) and the Meghalaya State Warehousing Corporation established under the notification of the Government of Meghalaya No. MCP 25/73/7, dated the 28th March, 1973 (hereinafter referred to as Meghalaya Corporation) in the following manner, namely:—

1. **Transfer of assets of dissolved Corporation.**—Subject to the other provisions of this agreement, as from the 21st January, 1975, all land, machinery, stores articles, and other goods belonging to the dissolved Corporation shall:—

- if situated within the State of Meghalaya, pass to and vest in the Meghalaya Corporation; and
- in any other case, pass to and vest in the Assam Corporation.

(1935)

*Explanation.*—In this clause, “land” includes immovable property of every kind and any right in or over such property, and “goods” does not include coins, bank notes or currency notes.

**2. Cash assets, liabilities and stores.**—As from the 21st January, 1975,—

- (a) the cash assets including investments and the liabilities of the dissolved Corporation as per provisional balance sheet as on the 21st January, 1975 shall be allotted to and be vested in the Assam Corporation;
- (b) stores at the head office of the dissolved Corporation at Gauhati shall be allotted to the Assam Corporation.

**3. Dead Stock and Equipment.**—The dead stock and equipment of the dissolved Corporation shall, as from the 21st January, 1975,—

- (a) if situated at the warehouse centres in the State of Meghalaya, stand allotted to Meghalaya Corporation.
- (b) if situated at the Warehouse centres in the State of Assam, stand allotted to the Assam Corporation.

**4. Employees.**—The employees of the dissolved Corporation shall as from the 21st January, 1975,—

- (a) if working in warehouse centres situated in the State of Meghalaya, stand allotted to Meghalaya Corporation;
- (b) in any other case, stand allotted to the Assam Corporation;

Provided that, the other employees who have been taken over by Meghalaya Corporation by mutual arrangement shall also stand allotted to Meghalaya Corporation from the date of their release from the Assam Corporation.

**5. Accrued income.**—All accrued income in respect of stocks shall, as from the 21st January, 1975,—

- (a) if lying in warehouses under the administrative control of the Assam Corporation stand allotted to that Corporation;
- (b) if any other case, stand allotted to Meghalaya Corporation.

**6. Advance payments.**—The benefit of advance payments in respect of insurance and rent of warehouses shall, as from the 21st January, 1975,—

- (a) if the warehouse is in-charge of the Assam Corporation, pass to that Corporation;
- (b) in any other case pass to the Meghalaya Corporation.

**7. Outstanding dues.**—Payment of outstanding bills pertaining to the period prior to the 21st January, 1975, shall, as from that date, be the liability of, and be paid by, the Assam Corporation.

**8. Residuary provisions.**—The benefit or burden of any assets and liabilities of the dissolved Corporation not dealt with in the foregoing provisions shall, as from the 21st January, 1975, be apportioned by Central Government, in such manner as may be considered necessary.

**9. Legal proceedings.**—Where immediately before the 21st January, 1975, the dissolved Corporation is a party to any legal proceedings with respect to any other property, rights or liabilities, transferred to the Meghalaya Corporation or the Assam Corporation under this agreement, the Meghalaya Corporation or the Assam Corporation, as the case may be, shall be deemed to be substituted for the dissolved Corporation as a party to the proceedings and the proceedings may continue accordingly.

**10. Acquisition proceedings.**—Where, immediately before the 21st January, 1975, any proceedings for acquisition of any land for the purpose of the dissolved Corporation are pending, then, all such proceedings in relation to the land situated in the State of Meghalaya shall be deemed to be the proceedings for the acquisition of land for the purpose of the Meghalaya Corporation, and in any other case shall be deemed to be proceedings for the acquisition of land for the purpose of the Assam Corporation.

EXPLANATORY MEMORANDUM

Under section 53 of the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the assets, rights and liabilities of the erstwhile Assam State Warehousing Corporation were required to be apportioned between the successor states in such manner as may be agreed upon among them within one year of the dissolution of the Corporation or if no agreement is reached, in such manner as the Central Government may, by order determine. The erstwhile Assam State Warehousing Corporation was dissolved on 21st January, 1975. The successor states of Assam and Meghalaya have not however come to an agreement upon the apportionment of assets, rights and liabilities within one year, namely, by 21st January, 1976. Accordingly, Central Government are issuing the order and have decided to give effect to the provisions contained in this order from 21st January, 1975 in terms of the provisions of Section 53 of the Act. The interests of any party are not prejudicially affected by the proposed retrospective effect.

[No. F. 7-7/73-SG.]

R. K. SHASTRI, Jt. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आवेश

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर 1976

का० प्रा० 674(अ).—पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 53 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के साथ पठित धारा 53 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आसाम सरकार की अधिसूचना सं० आर० डी० सी० 3/57/205, तारीख 12 अगस्त, 1958 के अन्तर्गत संयुक्त आसाम राज्य के लिए स्थापित आसाम स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन (जिसे इसमें इसके पश्चात् विघटित निगम कहा गया है) की आस्तियाँ, अधिकार और दायित्व आसाम सरकार की अधिसूचना सं० सी० ओ० पी० 391/73/43, तारीख 27 दिसम्बर, 1974 के अन्तर्गत स्थापित आसाम स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन (जिसे इसमें इसके पश्चात् आसाम निगम कहा गया है) तथा मेघालय सरकार की अधिसूचना सं० एम० सी० पी० 25/73/7, तारीख 28 मार्च, 1973 के अन्तर्गत स्थापित मेघालय स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन (जिसे इसमें इसके पश्चात् मेघालय निगम कहा गया है) के बीच निम्नलिखित रीति से प्रभावित किए जायेंगे, अर्थात् :—

1. विघटित निगम की आस्तियों का अन्तरण.—इस करार के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, 21 जनवरी, 1975 से विघटित निगम की समस्त भूमि, मशीनें, भाण्डार वस्तुएँ, और अन्य माल :—

(क) यदि वह मेघालय राज्य के भीतर स्थित है तो मेघालय निगम को चला जाएगा और उसमें निहित होगा; तथा

(ख) किसी अन्य दशा में आसाम निगम को चला जाएगा और उसमें निहित होगा।

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड में, “भूमि” के अन्तर्गत प्रत्येक प्रकार की स्थावर सम्पत्ति और ऐसी सम्पत्ति में या उस पर कोई अधिकार भी है, तथा “माल” के अन्तर्गत सिक्के, बैंक नोट या करन्सी नोट नहीं आते हैं।

**2. नकदी आस्तियां, दायित्व और भाण्डार. — 21 जुलाई, 1975 से ही—**

- (क) विघटित निगम की 21 जनवरी, 1975 के अन्तिम तुलन पत्र के अनुसार नकदी आस्तियां, जिसके अन्तर्गत विनिधान और दायित्व भी हैं, आसाम निगम को आवंटित और उसमें निहित हो जायेंगे ;
- (ख) विघटित निगम को गौहाटी स्थित भाण्डार आसाम निगम को आवंटित हो जायेंगे ।

**3. निष्क्रिय भाण्डार और उपस्कर. — विघटित निगम के 21 जनवरी, 1975 को यथा विद्यमान निष्क्रिय भाण्डार और उपस्कर,**

- (क) यदि मेघालय राज्य में भाण्डार केन्द्रों में अवस्थित है तो मेघालय निगम को आवंटित हो जायेंगे ।
- (ख) यदि आसाम राज्य में भाण्डागार केन्द्रों में अवस्थित हैं तो आसाम निगम को आवंटित हो जायेंगे ।

**4. कर्मचारी. — 21 जनवरी, 1975 से विघटित निगम के कर्मचारी—**

- (क) यदि वे मेघालय राज्य में स्थित भाण्डागार केन्द्रों में कार्य कर रहे हैं तो मेघालय निगम को आवंटित हो जायेंगे ;
- (ख) किसी अन्य दशा में आसाम निगम को आवंटित हो जायेंगे :

परन्तु अन्य ऐसे कर्मचारी जिन्हें मेघालय निगम ने परस्पर करार द्वारा ग्रहण कर लिया है, आसाम निगम से उन्हें उन्मोचित किए जाने की तारीख से मेघालय निगम को आवंटित हो जाएंगे ।

**5. उद्भूत आय. — 21 जनवरी, 1975 से भाण्डार की बाबत समस्त उद्भूत आय—**

- (क) यदि वह आसाम निगम के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रखी हुई है तो निगम को आवंटित होगी ;
- (ख) किसी अन्य दशा में मेघालय निगम को आवंटित होगी ।

**6. अग्रिम संदाय. — भाण्डागारों के बीमा और किराए के संबंध में अग्रिम संदायों का फायदा 21 जनवरी, 1975 से,**

- (क) यदि भाण्डागार आसाम निगम के भारसाधन में है तो उस निगम को चला जाएगा, तथा
- (ख) किसी अन्य दशा में मेघालय निगम को चला जाएगा ।

**7. बकाया रकम. — 21 जनवरी, 1975 से पूर्व की अवधि से संबंधित बकाया बिलों का संदाय, उस तारीख से ही आसाम निगम का दायित्व होगा और उसी के द्वारा किया जाएगा ।**

8. अवशिष्ट उपबन्ध.—विघटित निगम की किन्हीं ऐसी आस्तियों और दायित्वों का क्रमशः फायदा या भार जिनके विषय में पूर्वगामी उपबंधों में व्यवस्था नहीं की गई है, 21 जनवरी, 1975 से ही केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति से प्रभाजित किए जायेंगे जैसी वह आवश्यक समझे।

9. विधिक कार्यवाहियाँ.—21 जनवरी, 1975 से ठीक पूर्व, इस करार के अधीन मेघालय में निगम या आसाम निगम को अन्तर्गत किसी अन्य सम्पत्ति, अधिकार या दायित्व के संबंध में यदि किन्हीं विधिका कार्यवाहियों में यथास्थिति मेघालय निगम या आसाम निगम को विघटित निगम के स्थान पर पक्षकार समझा जाएगा और तदनुसार कार्यवाहियाँ जारी रहेंगी।

10. अर्जन सम्बन्धी कार्यवाहियाँ.—यदि 21 जनवरी, 1975 से ठीक पूर्व विघटित निगम के प्रयोजन के लिए किसी भूमि को अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ लम्बित हैं, तो, मेघालय राज्य में स्थित भूमि के संबंध में सभी ऐसी कार्यवाहियाँ मेघालय निगम के प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ समझी जायेंगी और किसी अन्य दशा में आसाम निगम के प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ समझी जायेंगी।

#### स्पष्टीकरण प्राप्य

पूर्वोक्त क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 53 के अधीन तत्कालीन आसाम स्टेट बेयरहाउसिंग कारपोरेशन की आस्तियाँ, अधिकार और दायित्वों का प्रभाजन उत्तराधिकारी राज्यों के बीच ऐसी रीति से करना अपेक्षित था जैसा कि उनमें निगम के विघटन के एक वर्ष के भीतर करार पाई जाए या यदि ऐसा करार नहीं हो पाए तो ऐसी रीति से प्रभाजित की जाती थी जो केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा अवधारित करे। तत्कालीन आसाम स्टेट बेयरहाउसिंग कारपोरेशन 21 जनवरी, 1975 को विघटित हुआ था। तथापि आसाम और मेघालय राज्य की आस्तियों और अधिकारों और दायित्वों के प्रभाजन के संबंध में एक साल के भीतर, अर्थात् 21 जनवरी, 1976 को कोई करार नहीं कर पाए हैं। तदनुसार केन्द्रीय सरकार यह आदेश जारी कर रही है और उसने इस आदेश में सम्मिलित उपबंधों को अधिनियम की धारा 53 के उपबंधों को वृष्टि में रखते हुए 21 जनवरी, 1975 से प्रभावी करने का विनिश्चय किया है। उपबन्धों को भूतलक्षी प्रभाव देने की प्रस्थापना का किसी पक्षकार के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं० एक० 7-7/73-एस० जी०]

प्रार० के० शास्त्री, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा  
नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

